

राजस्थान विधान सभा  
आठवां सत्र  
कार्य-सूची  
शनिवार, दिनांक 25 मार्च, 2017  
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

- (I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री जगदीश नारायण, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के कतिपय गांवों की भूमि के सरिस्का बाघ परियोजना बफर क्षेत्र में आने से अधिकांश गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक के संबंध में वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य, विधान सभा, आमजन की शिकायतों के अधिकांश प्रकरणों में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करने के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

आबकारी विभाग

- (I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या:एफ.4(41)वित्त/आब/2001 दिनांक 24 मार्च, 2017 जिसके द्वारा राजस्थान नॉरकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटान्सेज रूल्स, 1985 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे।

महिला एवं बाल विकास विभाग

- (II) श्रीमती अनिता भदेल, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना संख्या:एफ.14(1)(40)निमअ/सामू.वि./2015-16/9286, दिनांक 16 मार्च, 2017 जिसके द्वारा राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2017 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखेंगी।

(ख) वार्षिक विवरण

- श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 की धारा-3(1) के अन्तर्गत राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

- (I) श्री म. रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य, विधान सभा, बल्लभनगर तहसील को यथावत रखते हुए भीण्डर व कानोड़ में नई तहसील का गठन किये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

- (II) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र भीम की नगरपालिका देवगढ़ में स्वीकृत गौरव पथ को तय दूरी एवं समय अनुसार पूर्ण करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

जारी..2..

(III) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के ग्राम सलेमाबाद का नाम परिवर्तित कर निम्बार्कतीर्थ करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(IV) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र खींवसर (जिला-नागौर) के ग्राम तथा लोक देवता तेजाजी महाराज की जन्म स्थली-खरनाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) स्वीकृत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

#### 4. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018

##### द्वितीय अवस्था

##### अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदानहोगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>	<u>मुख्य शीर्षक</u>
1.	9	- वन (पर्यावरण सहित)
2.	43	- खनिज

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

विधान सभा भवन,

जयपुर

दिनांक 24 मार्च, 2017

पृथ्वी राज

सचिव

---

नोट :- प्रश्नकाल नहीं होगा। शून्यकाल होगा।